

भारतकोकिंगकोललिमिटेड

एक मिनीरत्नकंपनी

(कोल इण्डियालिमिटेडका एक अंग)

जनसम्पर्कविभाग

कोयलाभवन, कोयलानगर

धनबाद- 826005 (झारखण्ड)

दूरभाष/फैक्स: 0326-2230202

वेबसाइट: www.bccl.gov.in

ईमेल: bcclprodhanbad@gmail.com

सीआईएन : U10101JH1972GOI000918



BHARAT COKING COAL LIMITED

'A Mini Ratna Company'

(A Subsidiary of Coal India Limited)

Public Relation Department

KoylaBhawan, Koyla Nagar

Dhanbad- 826005 (Jharkhand).

Phone/Fax: 0326-2230202

website: www.bccl.gov.in

email: bcclprodhanbad@gmail.com

CIN : U10101JH1972GOI000918

दिनांक - 08.05.2017

प्रेस विज्ञप्ति

बीसीसीएल के कमान संभाल रहे प्रभारी अध्यक्ष सह-प्रबन्ध निदेशक श्री गोपाल सिंह के निर्देशानुसार आज बीसीसीएल मुख्यालय के कोयला भवन में बीसीसीएल प्रबन्धन एवं सेफ्टी बोर्ड के प्रतिनिधियों के बीच एक अहम बैठक सम्पन्न हुई। इस बैठक की अध्यक्षता निदेशक तकनीकी (योजना/परियोजना) श्री देवल गंगोपाध्याय द्वारा किया गया। सेफ्टी बोर्ड के सदस्यों में श्री आर० पी० सिंह, सचिव, के०आई०एम०पी०, विनोद मिश्रा, यू०सी०डब्लू०, श्री राम चन्द्र पासवान, डीसीकेएस/ बी०एम०एस०, श्री आर के तिवारी, बी०सी०एम०यू, श्री ए०एम० पाल, बी०सी०के०यू० तथा गोपाल मिश्रा, एसचएमएस/जेएमएस उपस्थित थे।

कोलियरियों में सुरक्षा को लेकर एवं दुर्घटना रहित उत्पादन को लेकर बीसीसीएल के निदेशक तकनीकी (योजना/परियोजना) श्री देवल गंगोपाध्याय ने कई अहम सुझाव दिये जिसमें कामगारों सुरक्षा के प्रति जागरूक करने हेतु विशेष रूप से जागरूकता अभियान चलाने की बात कही। उन्होंने कहा कि सुरक्षा के प्रति जागरूक होकर ही शून्य सुरक्षा के लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। उन्होंने सुरक्षा विषय को गंभीर विषय बताते हुए कहा कि कंपनी के द्वारा अपनाए गए सुरक्षा के विभिन्न पहलुओं के वजह से आज हमने इसमें कमी पाने में सफलता हासिल की है और कई सालों इसमें कमी आ रही है।

सेफ्टी बोर्ड के सदस्यों ने आज के बैठक में कंपनी में कार्यरत मजदूरों से संबंधित विभिन्न मुद्दे प्रबन्धन के सामने रखा जिसमें मजदूरों की सुरक्षा, आवास मरम्मती, कालान्धियों में साफ-सफाई, डिस्पेंसरियों में दवा की कमी एवं चिकित्सकों की उपलब्धता जैसे कई मुद्दे शामिल थे।

सेफ्टी बोर्ड के सदस्यों के द्वारा उठाये गए मुद्दों को प्रबन्धन के द्वारा प्राथमिकता के आधार पर विचार करने का आश्वासन दिया गया। साथ ही प्रबन्धन ने सभी क्षेत्रीय महाप्रबन्धकों को निर्देश दिया कि माँनसून से पूर्व माँनसून से निपटने की तैयारी करें ताकि श्रमिकों की सुरक्षा एवं कोलियरियों में होने वाले क्षति से बचा जा सके।

उपरोक्त बैठक में महाप्रबन्धक (सुरक्षा एवं बचाव) श्री ए0के0 सिंह ने उपस्थित सदस्यों का स्वागत किया तथा उन्होंने सभी क्षेत्रों में जागरूकता अभियान को वाट्स सेप के जरिये चलाये जा रहे अभियान को विस्तृत रूप से जानकारी सुरक्षा समिति के सदस्यों को भी देने की सलाह दी तथा उन्होंने कहा कि इसकी आवश्यकता है कि सभी मजदूरों को सुरक्षा से संबंधित जानकारी दी जाए ।

उपरोक्त बैठक में महाप्रबन्धक (समन्वय) श्री केशव गुप्ता, महाप्रबन्धक (असैनिक) श्री आर एम प्रसाद, महाप्रबन्धक (सुरक्षा/बचाव) श्री ए के सिंह, महाप्रबन्धक (वि0एवंया0) श्री ओ0पी0 सिंह, महाप्रबन्धक (उत्खनन) श्री के0के0 त्रिपाठी, महाप्रबन्धक (एमएम) श्री उमेश कुमार महाप्रबन्धक (कार्मिक/नियुक्ति) श्री अजीत कुमार सिंह, सीएमएम, बीसीसीएल डा0 डी के झा, सीएमएस, डा0 एस गोलास, मुख्यालय के महाप्रबन्धक/विभागाध्यक्ष तथा सभी क्षेत्रों के महाप्रबन्धक, सुरक्षा पदाधिकारी एवं आई0एस0ओ0 अधिकारियों ने उपरोक्त बैठक में उपस्थित थे ।

धन्यवाद जापन मुख्य प्रबन्धक(खनन) श्री एस मीटर द्वारा दिया गया ।

उप महाप्रबन्धक(जन सम्पर्क)

